



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1032 राँची, शुक्रवार,

6 दिसम्बर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2019

संख्या-09/आरोप-राँची-91/2017 - 4726 (09)/रा०, -- श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकोम सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मौजा-टुम्बागुटू से संबंधित रैयतों का प्रतिरक्षा विभाग के लिए अर्जित भूमि के क्रेता एवं विक्रेता के बिना दखल-कब्जा वाली भूमि के नामांतरण हेतु गलत रूप से उनका दखल कब्जा बताकर नामांतरण करने की अनुशंसा करने संबंधी प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-929/रा०, दिनांक-05.03.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं श्री चौधरी की सेवानिवृत्ति के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-1647/रा०, दिनांक-13.04.2018 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत संपरिवर्तित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के सम्यक् समीक्षोपरांत श्री चौधरी के पेंशन से 5% की राशि अगले 02 (दो) वर्षों तक कटौती करने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय पत्रांक-3833/रा०, दिनांक-12.09.2018 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी।

3. उक्त के क्रम के श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा के जवाब के सम्यक् समीक्षोपरांत श्री चौधरी के विरुद्ध उपरोक्त दंड अधिरोपित किये जाने के निर्णय को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग से उक्त दंड अधिरोपित करने हेतु सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया।

4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2722, दिनांक-21.11.2019 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध उपरोक्त दंड अधिरोपित किये जाने पर सहमति संसूचित की गयी।

अतः उक्त के आलोक में श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकोम सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के विरुद्ध उनके पेंशन से 5% की राशि की कटौती अगले 02 (दो) वर्षों तक करने का दंड अधिरोपित किया जाता है तथा इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
